

MA3004/ME3004

Roll No. :

Nov. 2022

MANUFACTURING ENGINEERING-I

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60]

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन हैं, बी एवं सी हैं।

Note : There are THREE sections in the paper A, B and C.

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in Section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन - ए

Section - A

1. (i) वैल्डिंग टॉर्च के किस भाग में ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस मिलती है ?

(a) टिप में (b) हैण्डल में

(c) मिक्सिंग चैम्बर में (d) रेग्युलेटर में

In which part of welding torch oxygen-acetylene gases is mixed ?

(a) In tip (b) In handle

(c) In mixing chamber (d) In regulator



- (ii) इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वैल्डिंग विधि में किया जाता है ?
- (a) गैस वैल्डिंग
 - (b) सबमर्जड वैल्डिंग
 - (c) आर्क वैल्डिंग
 - (d) उपरोक्त सभी

In which welding electrode is used ?

- (a) Gas welding
- (b) Submerged welding
- (c) Arc welding
- (d) All of the above

- (iii) किस उपकरण द्वारा लुब्रीकेंट को मशीनों को दिया जाता है ?

- (a) आयल केन द्वारा
- (b) ग्रीस गन द्वारा
- (c) ऑयल गन द्वारा
- (d) उपरोक्त सभी

Which apparatus is used for lubricating machine ?

- (a) By oil cane
- (b) By grease gun
- (c) By oil gun
- (d) All of the above

- (iv) ड्रिल किस धातु के बनाए जाते हैं ?

- (a) हाइस्पीड स्टील
- (b) हाई कार्बन स्टील
- (c) एलॉय स्टील
- (d) उपरोक्त सभी

Drill are made up of

- (a) High speed steel
- (b) High carbon steel
- (c) Alloy steel
- (d) All of the above

- (v) लैथ बेड बना होता है ?

- (a) कास्ट आयरन
- (b) स्टेनलैस स्टील
- (c) माइल्ड स्टील
- (d) पिंग आयरन

Lathe bed is made up of

- (a) Cast Iron
- (b) Stainless Steel
- (c) Mild Steel
- (d) Pig Iron

- (vi) एक माइक्रोन किसके बराबर होता है ?

- (a) $\frac{1}{10}$ mm
- (b) $\frac{1}{100}$ mm
- (c) $\frac{1}{1000}$ mm
- (d) $\frac{1}{10000}$ mm

One micron is equal to

- (a) $\frac{1}{10}$ mm
- (b) $\frac{1}{100}$ mm
- (c) $\frac{1}{1000}$ mm
- (d) $\frac{1}{10000}$ mm

(vii) ग्रांइंडिंग व्हील का प्रमुख तत्त्व कौन सा है ?

- | | |
|------------|----------------------|
| (a) मिट्टी | (b) एब्रेसिव व बाण्ड |
| (c) चूना | (d) उपरोक्त सभी |

Main element of grinding wheel is

- | | |
|----------|----------------------|
| (a) Sand | (b) Abrasive & Bond |
| (c) Lime | (d) All of the above |

(viii) सिलिकन कार्बाइड कौन सा अपघर्षक है ?

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (a) प्राकृतिक | (b) अप्राकृतिक (कृत्रिम) |
| (c) मिट्टी | (d) उपरोक्त सभी |

Which type of abrasive is silicon carbide ?

- | | |
|-------------|----------------------|
| (a) Natural | (b) Artificial |
| (c) Clay | (d) All of the above |

(ix) ब्लैड के दो क्रमागत दाँतों के बीच की दूरी को कहते हैं।

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (a) लीड | (b) पीच |
| (c) मार्जिन | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

The length between two successive teeth of a blade is called

- | | |
|------------|-----------------------|
| (a) Lead | (b) Pitch |
| (c) Margin | (d) None of the above |

(x) ब्लैंक पर से निम्न में से किस विधि द्वारा गियर बनाए जाते हैं ?

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) मिलिंग | (b) ब्रोचिंग |
| (c) ड्रिलिंग | (d) शैपिंग |

Which of the following process is used for making gears from the blank ?

- | | |
|--------------|---------------|
| (a) Milling | (b) Broaching |
| (c) Drilling | (d) Shapping |

सेक्षन - बी

Section - B

2. ब्रेजिंग एवं सोल्डरिंग से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by Brazing & Soldering ? (3)

3. मिलिंग मशीन के विनिर्देश लिखिए।

Write the specification of milling machine. (3)

4. स्नेहक के विभिन्न गुणधर्म लिखिए।
Write down the different properties of Lubricants. (3)
5. ग्रांइंडिंग व्हील के माउटिंग एवं बेलेन्सिंग को समझाइये।
Explain Mounting & Balancing of grinding wheel. (3)
6. कर्तन द्रव्य एवं स्नेहक में अंतर बताइए।
Differentiate between cutting fluid & lubricant. (3)
7. लोडिंग ऑफ व्हील तथा ग्लेजिंग ऑफ व्हील किसे कहते हैं ?
What is the loading of wheel & glazing of wheel ? (3)
8. ड्रिल एवं रीमर्स में अन्तर बताइए।
Differentiate between Drill & Reamers. (3)
9. वैल्डिंग दोष को लिखिए।
Write down the welding defects. (3)

सेक्शन – सी

Section – C

10. किसी एक प्रकार की मिलिंग मशीन को चित्र की सहायता से समझाइए।
With the help of neat sketch, explain any one type of milling machine. (8)
11. (a) ग्रांइंडिंग की मानक मार्किंग प्रणाली समझाइए।
Explain standard marking system of grinding. (4)
 (b) विभिन्न प्रकार के रीमर्स को समझाइए।
Explain different types of reamers. (4)
12. ब्रोचिंग क्या है ? किसी एक ब्रोचिंग मशीन को चित्र की सहायता से समझाइए।
What is Broaching ? Describe the any one broaching machine with diagram. (8)
13. लैथ मशीन के विभिन्न ऑपरेशन्स को समझाइए।
Explain different operations of Lathe machine. (8)
14. विभिन्न प्रकार की वैल्डिंग फ्लेम को सचित्र समझाइए।
Explain various types of welding flames with sketch. (8)
15. कटिंग द्रव्य किसे कहते हैं ? स्नेहक के गुणधर्म एवं उपयोग समझाइए।
What is cutting fluid ? Explain the properties & application of lubricants. (2+6)

